



DUROPACK LIMITED

(Mfrs. of Flexible Laminates Pouches & Holographic Products)

Admin. Office: B-4/160, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029 (INDIA)

Tel.: 011-26181611, 41359339, e-mail: info@duropackindia.com

Website: www.duropackindia.com, CIN: L74899DL1986PLC025835

May 31, 2024

BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai-400 001

Scrip Code-526355

Attn.: The Manager, Listing Dept.

Dear Sir/Madam,

Sub: Submission of Copies of Publication to Stock Exchange, published pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to the Provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith extracts of Audited Financial Results of the 4th quarter and year ended March 31, 2024 adopted in Board Meeting held on May 30, 2024, published in one English and Hindi Newspaper in "Financial Express" and "Jan Satta" respectively on May 31, 2024.

Kindly acknowledge the receipt and take it on record.

For **Duro Pack Limited**

Digitally signed
by ANJU
Date:
2024.05.31
16:24:39 +05'30'

Anju
Company Secretary & Compliance officer

Regd. Office: 3123, Sector-D, Pocket-III, Vasant Kunj, New Delhi - 110070

Works: Village Panchor, 84 K.M. Stone, Delhi Jaipur Highway, Jarthal Road, Rewari (Haryana) Tel.: (01274) 249039, 249049

Edelweiss ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Edelweiss ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED
 Corporate Identity Number: U67100MH2007PLC174759
 Registered Office: Edelweiss House, Off CST Road, Kalina, Mumbai-400 098
 Tel: +91 22 4183 0600. earc.info@edelweissarc.in
 Grievance Redressal Officer: Please visit website www.edelweissarc.in or
 Call at +91 22 4183 0600, Contact Centre No.: 1800 2666540
 Email: earc.info@edelweissarc.in, Website: www.edelweissarc.in

POSSESSION NOTICE
[(Appendix IV) Rule 8(3)]

Whereas, The Authorised Officer of Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited under the provision of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) (hereinafter referred to as "SARFAESI Act, 2002") having its Registered Office At: Edelweiss House, Off CST Road, Kalina, Mumbai-400098 (hereinafter referred to as "EARCL") and in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 20.12.2021 calling upon 1. M/s Laxmi Cigarette Show Proprietor Mr. Laxmi Narayan Gupta (Borrower and Mortgagee) L 11-12, Vijay Chowk, Laxmi Nagar Delhi-110092, Also At: 43, Ground Floor Tansen Marg Bengali Market, South-West Delhi-110001, 2. Mr. Laxmi Narayan Gupta S/o Mr. Madan Lal Gupta (Co-Borrower/Mortgagee) House No. 34, Old No. H-10, Out of Khasra No. 65, Near Vijay Chowk, Village Khureji Khas, Laxmi Nagar, Shahdara, Delhi-110092, Also At: L 11-12, Vijay Chowk, Laxmi Nagar Delhi-110092, 3. Mr. Amit Gupta S/o Mr. Laxmi Narayan Gupta (Co-Borrower) L 11-12, Vijay Chowk, Laxmi Nagar Delhi-110092, 4. Mrs. Raj Rani (Co-Borrower) L 11-12, Vijay Chowk, Laxmi Nagar Delhi-110092 to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 1,71,42,764.85 (Rupees One Crore Seventy One Lakhs Forty Two Thousand Seven Hundred Sixty Four and Paise Eighty Five Only) along with interest as on 24.11.2021 within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower/ Guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and Guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercising of powers conferred on him under sub-section (4) of Section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 28th day of May 2024.

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of "EARCL" for an amount of Rs. 1,71,42,764.85 (Rupees One Crore Seventy One Lakhs Forty Two Thousand Seven Hundred Sixty Four and Paise Eighty Five Only) and interest other charges thereon 24.11.2021.

The attention of the Borrower is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES IS AS UNDER:-

All that piece and parcel of Residential Property being House No. 34, Old No. H-10, Out of Khasra No. 65, near Vijay Chowk, Village Khureji Khas, Laxmi Nagar, Ilaqa Shahdara, Delhi-110092 admeasuring area 110 Sq. Yards. Bounded as:- North:- Gali 30 Ft. Wide, South:- Remaining Portion of Plot No. 34, East: Gali 10 Ft. Wide, West: Gali 30 Ft. Wide, Property owned by Mr. Laxmi Narayan Gupta.

Date: 31.05.2024
 Place: Delhi

GARG ACRYLICS LTD.
 Regd. Office : A-50/1, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052
 CIN : L74999DL1983PLC017001
 E-mail: gargacrylics@yahoo.com

Extract of Audited Consolidated Financial Results for the Quarter & Year Ended 31st March, 2024

Sr. No.	Particulars	(Rs. in Lacs)			
		Quarter ended 31-03-2024 (Audited)	Quarter ended 31-03-2023 (Audited)	Year ended 31-03-2024 (Audited)	Year ended 31-03-2023 (Audited)
1	Total Income from Operations	45575.15	42103.74	160741.39	160375.11
2	Net Profit before Tax	333.82	-671.31	-2391.49	2880.1
3	Net Profit after tax & minority interest	159.46	-462.54	-2692.93	2228.85
4	Total Comprehensive Income after Minority Interest (Comprising Net Profit and Other Comprehensive Income net of tax)	211.51	-355.62	-2561.98	2334.05
5	Paid up Equity Share Capital	664.28	664.28	664.28	664.28
6	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (EPS)	2.4	-6.96	-40.54	33.55
	Basic and Diluted Earning per share (Rs.) (not annualised)				

Notes:
 a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for Year ended 31-03-2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange website "www.mseil.in" and Company's Website "www.gargitd.com".
 b) Key Standalone financial information is given below:-

Particulars	(Rs. in Lacs)			
	Quarter ended 31-03-2024 (Audited)	Quarter ended 31-03-2023 (Audited)	Year ended 31-03-2024 (Audited)	Year ended 31-03-2023 (Audited)
Total Income from Operations	45575.07	42103.74	160741.31	160375.11
Profit Before Tax	333.81	-671.31	-2391.49	2880.1
Profit After Tax	159.45	-462.55	-2692.93	2228.85

By order of the Board
 For Garg Acrylics Limited
 Sd/-
 Sanjiv Garg
 Managing Director
 (Din: 00217156)
 Place : Ludhiana
 Dated : 30th May, 2024

AASHRIT CAPITAL LIMITED
 CIN : L65923DL1972PLC317436
 Regd. Office : Select CityWalk, 6th Floor, A-3, District Centre, Saket, New Delhi 110017
 Email id: aashritcapitallimited@gmail.com, Website: www.aashritcapital.com,
 Tel. No. : 011-40599999

Sr. No.	Particulars	(AMOUNT IN LAKHS)			
		For the Quarter Ended On 31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	For Year Ended On 31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)
1	Total income from operations (net)	423.19	1,114.10	918.52	5,661.54
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	82.34	27.38	235.76	2,585.23
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	82.34	27.38	235.76	2,585.23
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	132.85	(7.12)	243.71	2,307.95
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	132.85	(7.12)	243.71	2,307.95
6	Equity share capital	1,120.25	1,120.25	1,120.25	1,120.25
7	Reserve (excluding revaluation Reserve) as shown in the audited balance sheet of previous year	15,457.17	15,213.46	15,457.17	15,213.46
8	Earnings Per Share (EPS) (for continuing and discontinued operations)	1.19	(0.06)	2.18	20.60
	a) Basic	1.19	(0.06)	2.18	20.60
	b) Diluted	1.19	(0.06)	2.18	20.60

Sr. No.	Particulars	(AMOUNT IN LAKHS)			
		For the Quarter Ended On 31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	For Year Ended On 31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)
1	Segment Revenue	423.19	1,114.10	918.52	5,661.54
	a) Segment-NBFC	-	-	-	-
	b) Segment- Real Estate	-	-	-	-
	c) Unallocated	-	-	-	-
	Total	423.19	1,114.10	918.52	5,661.54
	Less: Inter Segment Revenue	-	-	-	-
	Gross Revenue	423.19	1,114.10	918.52	5,661.54
2	Segment Results	82.34	27.38	235.76	2,585.23
	a) Segment-NBFC	-	-	-	-
	b) Segment- Real Estate	-	-	-	-
	c) Unallocated	-	-	-	-
	Profit/Loss Before Tax	82.34	27.38	235.76	2,585.23
3	Segment Assets	17,918.71	17,793.27	17,918.71	17,793.27
	a) Segment-NBFC	-	-	-	-
	b) Segment- Real Estate	-	-	-	-
	c) Unallocated	-	-	-	-
	Total Assets	17,918.71	17,793.27	17,918.71	17,793.27
4	Segment Liabilities	1,341.28	1,459.56	1,341.28	1,459.56
	a) Segment-NBFC	-	-	-	-
	b) Segment- Real Estate	-	-	-	-
	c) Unallocated	-	-	-	-
	Total Liabilities	1,341.28	1,459.56	1,341.28	1,459.56

Notes:
 1. The above audited financial results for the quarter and year ended on 31.03.2024 have been reviewed by the Audit committee and have been approved by the Board at their meeting held on 30.05.2024
 2. The figures of quarter ended on 31.03.2024 are the balancing figure between audited figures in respect of financial year 2022-23
 3. There are two reportable Segments as per Indian Accounting Standard (IndAS) 108 "Operating Segment"
 4. The Company has adopted Ind AS 17 "Leases" effective 1 April 2019, as notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) in the Companies (Indian Accounting Standard) Amendment Rules, 2019, using modified retrospective method. The adoption of this standard did not have any material impact on the profit of the current quarter.
 5. Previous period figure has been regrouped/rearranged wherever necessary.

For Aashrit Capital Limited
 Sd/-
 Nimish Arora
 Managing Director
 DIN : 01982312
 Date : 30.05.2024

SMFG India Home Finance Company Ltd.
SMFG India Home Finance Company Ltd.
 (Formerly Fullerton India Home Finance Co. Ltd.)
 Corporate. Off. : 503 & 504, 5th Floor, G-Block, Inspire BKC, BKC Main Road, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051, MH.
 Regd. Off. : Megh Towers, Fr. 3, Old No. 307, New No. 165, Poonamallee High Road, Madhavurayal, Chennai-600 095, Tamil Nadu.

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-AUCTION SALE NOTICE OF 30 DAYS FOR SALE OF IMMOVABLE ASSETS UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 READ WITH PROVISION TO RULE 8(6) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002. NOTICE is hereby given to the Public in General and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below listed immovable properties ("Secured Assets") mortgaged / charged to the Secured Creditor, the Possession of which has been taken by the Authorised Officer of SMFG India Home Finance Company Ltd. (Formerly Fullerton India Home Finance Co. Ltd.) (hereinafter referred to as SMHFC) ("Secured Creditor"), will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" on the date and time mentioned herein below, for recovery of the dues mentioned herein below and further interest and other expenses thereon.

Sr. No.	Name of the Borrower(s) / Guarantor(s) LAN	Description of the Properties	Reserve Price (In ₹)	Date & Time of E-Auction	Date of EMD Submission
			Earnest Money Deposit (In ₹)		
01.	LAN : 60813921122095 1. Nandeshwar Sukhlal Sah 2. Sarawati	All That Piece & Parcel of The Property Plot No. 60-A, Area Measuring 180 Sq. Yds., Out Of Khasra No. 59/22, Situated Estate of Village : Hastal Colony Know As Mohan Garden Peepal Wal Mor Uttam Nagar, New Delhi. Bounded As Under : ➤Boundaries ➤East : Other's Plot; ➤West : Other's Plot; ➤North : Gali 10 Feet; ➤South : Road 20 Feet.	91,30,000/-	03.07.2024 at 11.00 a.m. to 01.00 p.m.	02.07.2024
			9,13,000/-		

Details terms and conditions of the sale are as below and the details are also provided in our / Secured creditor's website at the following link / website address (https://disposalhub.com and https://www.grishashakti.com/pdf/E-Auction.pdf). The intending Bidders can also contact : Mr. Ashish Kaushal, Name of Authorised Person, Mob. No. 8527134222, E-mail : Ashish.Kaushal@grishashakti.com and Mr. Niloy Dey, on his Mob. No. 9920697801, E-mail : Niloy.Dey@grishashakti.com.

Place : New Delhi
 Date : 29.05.2024
 Authorized Officer, (SMFG INDIA HOME FINANCE COMPANY LIMITED (Formerly Fullerton India Home Finance Co. Ltd.))

ISF LIMITED
 Plot No-13, KH.No.33/7, Village Amberhal, Pole No.J967, Sector-19, Dwarka, Delhi - 110077
 CIN NO : L74899DL1988PLC076648 email id to info@isflimited.in, Phone no 0120-3226522, 9105535135

Statement of Audited Financial Results for the Fourth Quarter and Year ended 31st March 2024

Particulars	(Rs. In Lakhs)		
	Quarter Ended 31-03-2024	Year ended 31-03-2023	Quarter Ended 31-03-2023
Total Income from operations	34.84	202.33	39.73
Net Profit from ordinary activities after Tax	-87.69	-73.88	-15.47
Net Profit for the period after tax (after Extra ordinary items)	-87.69	-73.88	-15.47
Equity Share Capital (Face value of Re. 1/- each)	95000000	95000000	95000000
Reserves Excluding revaluation reserves as per Balance Sheet of previous accounting year	466.60		
Earning Per Share (before extraordinary items) of Re. 1/- each (not annualised)	-0.0923	-0.0778	-0.0163
Earning Per Share (after extraordinary items) of Re. 1/- each (not annualised)	-0.0923	-0.0778	-0.0163

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and on company's Website (www.isflimited.in)

- The financial results of the company have been prepared in accordance with Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.
- The above results have been reviewed by the Audit Committee were approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 30.05.2024
- Segment reporting as defined in IND-AS 108 is not applicable since the entire operations of the company relates to only one segment.
- Figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary.
- There are no Other Comprehensive Income for the periods presented above.

For ISF LIMITED
 Sd/-
 Manisha Saxena
 Company Secretary and Compliance Officer
 Place : New Delhi
 Dated : 30-05-2024

PRISM MEDICO AND PHARMACY LIMITED
 Registered office: Suket Road, Kala Amb, Sirmour, Himachal Pradesh-173030
 CIN: L24100HP2002PLC009299; Website: www.prismmedico.in
 Email id: investor@grievancewmcil@gmail.com

STATEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2024

Sr. No.	Particulars	in Lakhs					
		Quarter ended		Year Ended		Year ended	
		(Audited) Reviewed	(Unaudited) Reviewed	(Audited) Reviewed	(Audited) Reviewed	(Audited) Reviewed	(Audited) Reviewed
		31/03/2024	31/12/2023	31/03/2023	31/03/2024	31/03/2023	
1.	Total income from operations (Net)	24.02	274.76	127.22	304.74	127.23	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-7.42	18.97	2.56	-2.79	-10.22	
3.	Tax, Exceptional and/or Extraordinary items	-7.42	18.97	2.56	-2.79	-10.22	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-6.76	18.97	5.07	-2.13	-7.64	
5.	Prior Period Income Adjustments	0.12	0.00	268.31	0.12	0.00	
6.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-6.64	18.97	273.38	-2.01	-7.64	
7.	Equity Share Capital	606.34	606.34	606.34	606.34	606.34	
8.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	907.81	914.45	909.81	907.81	909.81	
9.	Earning per share (before extraordinary items) of Rs. 10/- each) Basic & Diluted	-0.001	0.0031	0.0008	-0.0005	-0.0013	
10.	Earning per share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) Basic & Diluted	-0.0011	0.0031	0.0008	-0.0005	-0.0013	

Notes:-
 1. The above results are as per Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 as amended and have been taken on record by Board of Directors at its meeting held on 29.05.2024 after being reviewed by the Audit Committee.
 2. This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
 3. The company is having single segment in accordance with IND AS 108 "operating segments", and therefore segment reporting is not applicable to the company.

For and on behalf of Board
 Sd/-
 Davender Singh
 Director (DIN: 09447213)
 Place: Kala Amb
 Date: 29.05.2024

Kalyani Commercials Limited
 Registered office: BG-223, Sanjay Gandhi Transport Nagar, GT Karnal Road, New Delhi-110042
 Email: kalyanicommercialslimited@gmail.com; Website: www.kalyani.gvttrucks.com; Contact No: 011-43063223, 011-47060223;
 CIN:L65923DL1985PLC021453

Extract of Standalone Un-Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2024

Sr. No.	Particulars	(Rs. in Lakhs)				
		Quarter ended		Year ended		
		(31/03/2024) (Audited)	(31/12/2023) (Un-Audited)	(31/03/2023) (Audited)	(31/03/2024) (Audited)	(31/03/2023) (Audited)
1	Total Income from operations	6,275.81	7,815.43	11,720.82	27,923.16	33,223.80
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	43.90	77.39	114.61	327.10	441.22
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	43.90	77.39	114.61	327.10	441.22
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	31.89	56.70	76.71	236.33	315.28
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	15.90	56.70	78.06	220.34	316.63
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/-)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	Other Equity			1,433.33	1,653.67	1,433.33
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations):					
	Basic:	3.19	5.67	7.67	23.63	31.66
	Diluted:	3.19	5.67	7.67	23.63	31.66

Notes:
 1. These financial results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued there under.
 2. The Above result were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held on 30th May 2023. The Statutory Auditor of the Company have provided Limited Review Report for the same.
 3. Figures of previous periods were re-grouped/re-classified wherever necessary to conform to the periods of current periods.
 4. Indian Accounting Standards are applicable on the Company.
 5. 1- The Company has reported Segment wise reporting as per Accounting Standard (AS-17). The Company has reported the following Business Segments:
 -Automobile
 -Other
 6. The Company was registered u/s 45-IA of the RBI Act 1934 as an NBFC Company besides its other business activities. The company has voluntarily made application for surrendering its NBFC status to the RBI vide company letter dated 28.06.2019. Further, The Company has received its approval vide RBI press release dated 26th May 2023.
 7. Complete results are available at company's website i.e http://kalyanicommercials.com/.

On Behalf of the Board
 For Kalyani Commercials Limited
 Sd/-
 Sourabh Agarwal
 (Whole time director and CFO)
 DIN: 02168346
 Date : 30th May, 2024
 Place : New Delhi

SANGAL PAPERS LIMITED (CIN: L21015UP1980PLC005138)
 REGD. OFFICE: VILL. BHAINSA, 22KM STONE, MAWANA-MEERUT ROAD, MAWANA, UP-250 401
 website: www.sangalpapers.com, E-mail: accounts@sangalpapers.com, Tel: 01233-274324

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31,

